

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019 — श्रावण 4, शक 1941

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-2/2019/7/8. — सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि, लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए।

अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019” जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए।

संलग्न :- पुनर्गठन योजना, 2019.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कबीरधाम की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियाँ, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियाँ, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. पुनर्गठन की प्रक्रिया :-

- (क) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे।

- (ख) इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (ग) प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा। अभ्यावेदन निराकरण के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में रखा जावेगा :-
- (एक) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों।
- (दो) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा।
- (तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा (घ) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा।
- (चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी।
- (पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो, अर्थात् एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो।
- (छः) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो।
- (सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो।
- (आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो।
- (नौ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना निर्मित हो।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा।
- (ङ) अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (च) इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी।
- (छ) प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे।

06. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

07. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

08. प्रबन्ध :-

- (क) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिवरित हो जाएगा तथा सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप/सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे। एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। परन्तु अशासकीय व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो।
- (ख) नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा।
- (ग) प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का नया निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका (क) में विहित अनुसार नियुक्त किया गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी।

09. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

10. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

11. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

12. आदेश जारी करने की शक्तियाँ :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन।

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुर्नगठन योजना, 2019

अनुसूची-एक

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या.कुरुवा पं.क.1244	धनोरा, कटोरा, खेलवा, टाटावाही, पिरचाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिडोरा, पं.क.1400
2	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बिडोरा पं.क.1400	बाम्हणटोला,	सेवा सहकारी समिति मर्या. सहसपुर लोहारा, पं.क. 1692
3	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बचेडी पं.क.994	छीरबांधा, सिंगरापारा, महाराटोला, बेलहारी, कुरकीपारा	
4	सेवा सहकारी समिति मर्या0 स0लोहारा पं.क.1692	उडियाखुर्द उडियाकला, कारेसरा, कुम्हारदनिया, बुधवारा, चिलमखोदरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. बचेडी, पं.क. 994
5	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 जुनवानी पं.क.1401	जुनवानी, सरोधीनवागांव, किनमिनिया, भलापुरी, मोहनपुर, कटंगीखुर्द, बोदलपानी, पालक, बंसुला, गजईडीह, छिदहा, तलीटोला, अकलाआमा, सौरु, बोगदा	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरुवा, पं.क. 1244
		चितखुरीखुर्द, कायलारझोरी, कनहारी, चितकुरीकला, खम्हेरहा, रानीगुडा, धानीखुंटा, पण्डरीपानी, करमंदा, कोदा, कटंगीकला, मुदमा, बछरुकोन्हा, घुघुवाडहरा	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 रेंगाखारकला, पं.क. 2036
6	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 चिल्फी पं.क.2021	बम्हनी, अग्री, रोल, रोलप्लाट, सोपखार, हटवार, सुतिया, नागवाही	
7	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 खेरबनाखुर्द पं.क.925 (बोडला)	खुर्सीपार, मडियाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. प्रभाटोला
		मिनमीनिया, मोतिमपुर, मातिनपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. राजानवागांव, पं.क. 926
		धोधा, खेरबनाखुर्द	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. बोडला, पं.क. 2030
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. पनेका (दशरंगपुर) पं.क. 27	खंडसरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. दशरंगपुर, पं.क. 28
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी (दशरंगपुर)पं.क. 1118	अमलीडीह, कृतबांधा	सेवा सहकारी समिति मर्या. मरका (पिपरिया)
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिरकोना	खैरझिटी	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुर, पं.क. 2012
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. झिरौनी पं.क. 21	कटेली	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी
		झिन्दाडुबहा	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिरकोना पं.क. 891
12	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी पं.क. 17	झलका	सेवा सहकारी समिति मर्या.कवर्धा पं.क. 27
13	सेवा सहकारी समिति मर्या. धरमगढ़ पं.क. 1688	भिखमपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या.ठाठापुर पं.क.161
14	सेवा सहकारी समिति मर्या. पिपरिया पं.क.888	सेमो, भानपुरी, सिधनपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्या.सोनबरसा पं.क.945
		मक्के	सेवा सहकारी समिति मर्या.लखनपुर
15	सेवा सहकारी समिति मर्या. मरका पं.क. 1123	धिरघोसा, घोरकारा, लधंन	सेवा सहकारी समिति मर्या. खपरी पं.क. 133
		पथर्रा, जोगीपुर, आंछी, बानो	सेवा सहकारी समिति मर्या. लखनपुर
16	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहगांव	काइलारीकापा, मजनूकापा	कुम्ही
17	सेवा सहकारी समिति मर्या. कवर्धा	मगरदा,	सेवा सहकारी समिति मर्या. नेवारी
18	सेवा सहकारी समिति मर्या. नेवारी	जोराताल,	सेवा सहकारी समिति मर्या. कवर्धा

1	2	3	4
19	सेवा सहकारी समिति मर्या. रेगाखार खुर्द	मोंगचुवा,	सेवा सहकारी समिति मर्या. कवर्धा
20	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी	भीखुडिया	सेवा सहकारी समिति मर्या. मैनपुरी
21	सेवा सहकारी समिति मर्या. मैनपुरी	लासाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी
22	सेवा सहकारी समिति मर्या. लालपुरकला	बरहटटी,	सेवा सहकारी समिति मर्या. खैरबनाकला
23	सेवा सहकारी समिति मर्या. खैरबनाकला	डंगनिया,	सेवा सहकारी समिति मर्या. लालपुरकला
24	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुरीखुर्द	पालीगुंडा	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिरकोना
25	सेवा सहकारी समिति मर्या. इन्दौरी	बंदौरा,	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी,
26	सेवा सहकारी समिति मर्या0 झिरौनी	बहरमुड़ा	सेवा सहकारी समिति मर्या. इन्दौरी
27	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रणवीरपुर	कोटगांव,	सेवा सहकारी समिति मर्या. रणजीतपुर
28	सेवा सहकारी समिति मर्या. रणजीतपुर	झाड़ूटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रणवीरपुर
29	सेवा सहकारी समिति मर्या. गैदपुर	उलट	सेवा सहकारी समिति मर्या. धरमगढ़
30	सेवा सहकारी समिति मर्या0 ठाठापुर	मोहभट्टा,	सेवा सहकारी समिति मर्या. गोछिया
31	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोछिया	सिधनपुरी,	सेवा सहकारी समिति मर्या. बा0 चारभाठा
32	सेवा सहकारी समिति मर्या0 चारभाठा	मोहनपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 गोछिया
33	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोड़ला	रानीदहरा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 तरेगांवमैदान
34	सेवा सहकारी समिति मर्या0 तरेगांव मैदान	खुरमुड़ा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोड़ला
35	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बैजलपुर	गोगीडबरी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोदा
36	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोदा	केसमरदा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बैजलपुर
37	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खैरबनाखुर्द	खुर्सीपार,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 राजानवागांव
38	सेवा सहकारी समिति मर्या0 खपरी	भोपालभवना,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सोनबरसा
39	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सोनबरसा	घुकसा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रवेली
40	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रवेली	सुखाताल	सेवा सहकारी समिति मर्या0 लखनपुर
41	सेवा सहकारी समिति मर्या0 लखनपुर	कान्हाभेरा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रवेली
42	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुसुमघटा	चिल्हाटी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 प्रभाटोला
43	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सांरगपुर	खुरहदा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 प्रभाटोला
44	सेवा सहकारी समिति मर्या0 प्रभाटोला	रीवापार	सेवा सहकारी समिति मर्या0 हरिनछपरा
45	सेवा सहकारी समिति मर्या0 हरिनछपरा	परसहा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 प्रभाटोला
46	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मड़मरा	बोईकछरा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुसुमघटा
47	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रेगाखारकला	बछरुकोहा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 सहसपुर लोहारा
48	सेवा सहकारी समिति मर्या0 महली	बीजाभाटा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पौनी
49	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पौनी	मुसउ,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 महली

1	2	3	4
50	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पड़रिया	धुतपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुकदूर
51	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुकदूर	घोघराखुर्द	सेवा सहकारी समिति मर्या0 पड़रिया
52	सेवा सहकारी समिति मर्या0 चांटा	अमीदा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 किसुनगढ़
53	सेवा सहकारी समिति मर्या0 किसुनगढ़	पुतकी,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 चांटा
54	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बाघामुढ़ा	बोधीपारा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोदवागोदान
55	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कोदवागोदान	तीनगडडा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 बाघामुढ़ा
56	सेवा सहकारी समिति मर्या0 दशरंगपुर	बिसेसरा,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 मोहगांव
57	सेवा सहकारी समिति मर्या0 करपीगोदान	लाडगपुर,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 दशरंगपुर
58	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुड़ा	पचधार,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुम्ही
59	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुम्ही	छितापारकला,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुड़ा
60	सेवा सहकारी समिति मर्या0 रुसे	बसनी	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुम्ही

अनुसूची - दो

क	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
निरंक			

अनुसूची-तीन

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. जुनवानी	जुनवानी, सरोधी, नवागांव, मिनमिनिया, भालापुरी, मोहनपुर, कटंगीखुर्द, बोदलपानी, पालक, बंसुला, गंजईडीह, छिंदहा, तेलीटोला, अकलाआमा, सोरु, बोगदा छितकुरीखुर्द, कोयलारझोरी, कनहारी, छितकुरीकला, खम्हेरहा, रानीगुडा, धानीखुटा, पंडरीपानी, करमंदा, बोदा, कंटंगीकला, कुरुमा, बघरु, कौहा, घुघवादाहरा	सेवा सहकारी समिति मर्या0 कुरुवा आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 रेगाखारकला	
2	सेवा सहकारी समिति मर्या., खैरबनाखुर्द	खुर्सीपार, मरियाटोला मिनमिनिया, मोतिमपुर घोधा, खैरबनाखुर्द,	सेवा सहकारी समिति मर्या0 प्रभाटोला सेवा सहकारी समिति मर्या0 राजानवांगांव आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या0 बोडला	